

Time : 3Hrs.

Sem. V-E/EEE
S & Prot. Lab.

Full Marks : 50**Pass Marks : 20**

1. Each question carries equal marks.
प्रत्येक प्रश्न का मान बराबर है।
2. Perform any one experiment/study and furnish it report
किसी एक प्रयोग/अध्ययन को सम्पन्न करें एवं इसका पूर्ण प्रतिवेदन तैयार करें।
3. Experiment will be allotted through lottery to examinee/group of examinees.
प्रयोग का आवंटन परीक्षार्थी/परीक्षाधियों के समूह को लॉटरी के ? आधार पर किया जाएगा।
4. Necessary calculations, drawings and other works shall be done individually.
आवश्यक गणना, आरेखन एवं अन्य कार्य व्यक्तिगत रूप से किये जायेंगे।

	Intn.	Extn.
	Comm.	Comm.
a) Practical exercise book वर्ग में किये गए प्रयोगों की पुस्तिका		
b) Process of experiment and result परिक्षण की विधि एवं निष्कर्ष	04	15
c) Viva - voce मौखिक प्रश्न	07	20
	04	-

P.T.O

1. How to plot the performance characteristics of over current relay? Compare the new trends in earthing schemes for different locations.

2. Make an arrangement to simulate the alternator protection. **አይታል ቅዱ የሚፈልጉ ምንም አይታል ይችላል**

3. Perform an experiment for operation of over current relay for different loads. **አይታል ቅዱ የሚፈልጉ ምንም አይታል ይችላል**

4. How to check the DOL starter under short circuit condition? **አይታል ቅዱ የሚፈልጉ ምንም አይታል ይችላል**
